

यात्रा भत्ता बिल के लिए प्रमाण पत्र
Certificate for T.A. Bills

प्रमाणित किया जाता है कि/Certified that :

1. मैं ने वास्तव में मेल/त्वरित रेल से यात्रा बिल में दिखाई गई श्रेणी में ही यात्रा की है।/I actually travelled by Mail, Express Train by the class of accommodation as claimed in the T.A. bill.
2. रविवार व छुट्टी के दिनों के लिए दावा किये गये भत्ते वाले दिनों में मैं शिविर में बैठा नहीं रहा।/I was actually and not merely constructively in camp on Sunday and other Holidays during the period for which daily allowance has been claimed.
3. बिल में दर्शाए गए दैनिक भत्ता वाले दिनों में मैं आकस्मिक अवकाश पर नहीं था।/ I was not on casual leave on any day for which daily allowance has been charged in the bill.
4. जिस दूरी के लिए भत्ते का दावा किया गया है वह मेरी जानकारी व विश्वास से सही है।/The distance by road for which road mileage allowance has been claimed is correct to the best of my knowledge and belief.
5. रुकने के दिन, जिनके लिए पूर्ण या आधा दैनिक भत्ते का दावा किया गया है, वे रुकने के स्थानों पर कार्य हेतु आवश्यक थे।/The halts for which full and half daily allowance have been claimed were necessitated by the performance of duty at the places of halt.
6. यात्राएँ जनहित में की गई हैं एवं जिन यात्राओं के लिए दावा किया गया है उनके लिए कोई सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया गया।/The journeys were performed in the interest of public service and no Government transport was utilised for journeys for which road mileage has been claimed.
7. रोड माइलेज भत्ता के लिए प्रस्तुत दावे में सूचित स्थान रेल द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े नहीं हैं।/The stations between which road mileage allowance has been claimed are not connected by rail directly or indirectly.
8. रेल द्वारा की गई यात्रा साध्य सबसे कम दूरी वाले मार्ग से थी तथा दिया गया रेल माइलेज सही है।/The rail journeys were performed by the shortest possible route and the rail mileage shown is correct.
9. मैंने विमान द्वारा यात्रा की है तथा रु..... का वास्तविक भुगतान किया।/I travelled by air and have actually paid Rs. _____ as fare.
10. मेरे पर विराम के दौरान मैं राजकीय मेहमान नहीं था और मेरे लिए राज्य/भारत सरकार अथवा अन्य संस्थान द्वारा रहने व भोजन की व्यवस्था नहीं की गई।/I was not treated as State Guest during my halt at and was not provided with board and lodging/lodging only at State expenses/at the expense of the Government of India or any organisation.
11. इस यात्रा के लिए रेल-वापसी टिकट उपलब्ध नहीं थे।/No return tickets (rail) were available for this journey.
12. रेल-वापसी टिकट उपलब्ध थे पर नहीं खरीदे गए क्योंकि अनुमानित अवधि में आने हेतु टिकट उपलब्ध नहीं थे।/Return tickets (rail) were available but were not purchased because the return journey was not expected to be performed with the period for which such tickets were available.
13. जन यात्रा साधन (स्टीमर को छोड़कर) में एकल सीट के लिए पूरक नियमों के नियम 46 में दी गई दर से ऊपर दूरी भत्ते का दावा नहीं किया गया है जिसमें दो निश्चित स्थानों के लिए निश्चित दर है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि बगैर किराया दिए अथवा वाहन चल खर्च दिए बगैर मैं ने कोई यात्रा नहीं की है।/I did not perform road journeys for which mileage allowance has been claimed at higher rates prescribed in rule 46 of the Supplementary Rules by taking a single seat in any public conveyance (excluding a steamer) which plies regularly for hire between fixed points and charges fixed rates. I also certify that the journey was not performed in any other vehicle without payment of its hire charges or incurring its running expenses.

14. मैं ने वायु यात्रा बुकिंग हेतु इंडियन एयरलाइन्स कॉरपोरेशन, एयर इंडिया इंटरनेशनल से विनिमय आदेश के तहत अग्रिम सुविधा प्राप्त की/प्राप्त नहीं की।/I availed myself of /did not avail of credit facilities for booking my air passage with the Indian Airlines Corpn. Air India International by requisition through an exchange order.
15. मैं ने रेल द्वारा मेरे लिए आरक्षित डिब्बे में यात्रा की है तथा मेरे साथ आरक्षित डिब्बे में किसी अनर्हता वाले व्यक्ति ने यात्रा नहीं की है/निम्नलिखित व्यक्तियों ने मेरे साथ आरक्षित डिब्बे में आवश्यक टिकट लेकर यात्रा की है।/I travelled by reserved accommodation by rail requisitioned (HOR) for me and no non-entitled persons travelled with me in the requisitioned accommodation/and the following persons travelled with me in the requisitioned accommodation by purchasing the necessary tickets.
16. यात्रा भत्ता बिल में दिखाए अनुसार यात्रा के लिए मुझे रु..... यात्रा अग्रिम के रूप में दिए गए हैं/नहीं दिए गए हैं तथा राशि इस बिल में समायोजित की गई है।/ I have been paid/not paid TA advance of Rs. _____ for the journeys shown in the TA bill and the amount is adjusted in this bill.
17. खुदरा आकस्मिकता बिल में कोई मील-दूरी भत्ता की दावा नहीं की गई है।/No mileage has been claimed in petty contingencies.
18. मुझे निर्धारित यात्रा भत्ता रु..... प्रति माह प्राप्त हुआ है तथा यात्रा भत्ता/स्थानांतरण यात्रा भत्ता की दावा किए गए दिनों से संबंधित राशि की कटौती इस बिल में से की गई है।/I am in receipt of fixed TA @ Rs. _____ P.M. and corresponding amount thereof has been deducted in this bill for the days for which tour/transfer TA has been claimed.
19. नगर सीमा के अंतर्गत स्थानीय यात्रा के संबंध में प्रमाणित किया जाता है कि अस्थाई कार्य स्थल पहुँचने के लिए की गई यात्रा की कुल दूरी को मेरे आवास से नियमित कार्य स्थल की दूरी से कम करने पर भी आठ कि.मी. से ज्यादा है।/ In respect of local journeys within municipal limits it is certified that the total distance travelled to reach the temporary duty point minus the distance from my residence to the normal place of duty is more than eight kilometres.
20. मैं दिनांक.....सेतक(होटल/संस्था).....(जगह का नाम) पर रुका।
I stayed fromto.....at (Name of Hotel/Estt.) at (Name of Place).....

हस्ताक्षर/Signature

पदनाम/Designation.....

नोट/NB : जो प्रमाण पत्र लागू नहीं उन्हें काट दें। (डी.जी.पी.टी. ज्ञापन नं. 45/ 148110, पी एन्ड ए दिनांक 21.10.60 और जी.आई.ओ. (1), एस. आर. 51)/Certificate which are inapplicable should be struck off.(D.G.P.T. Memo No.45/148110, P&A dated 21.10.60 and G.I.O (1),S.R.51)